

अध्याय - 9

पपाइरस की आत्मकथा

इन शब्दों के अर्थ लिखें-

पपाइरस - पौधों के डठल से मिस्र के लोगों द्वारा बनाया गया कागज।
पुस्तकालय - जहां बहुत सारी किताबें रखी हो। पूर्वज - पहले के वंशज को कहते हैं। तकनीक- किसी विशेष कला का ज्ञान। मिश्रण-दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाना।

पोस्टर -विज्ञापन जो दीवारों में चिपकाया जाता है। असमंजस -संदेहात्मक स्थिति।

रिक्त स्थानों को पूरा करें -

क. मैं हूँ 'पपाइरस'। मैं अपनी प्यारी दोस्त मीनू की डायरी का एक पन्ना हूँ।
ख. पहले सभी पत्थर या पत्तों आदि पर लिखा करते थे।
ग. पपाइरस की खोज मिस्र के लोगों ने की थी।
घ. चीन के कई लुन ने एक अनोखी तकनीक से पपाइरस को तैयार किया।
ड. पपाइरस का सही उपयोग करके हम न केवल स्वयं बल्कि प्रकृति को भी लाभ पहुँचा सकते थे सकते हैं।

सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ-

- मीनू स्कूल की ओर से कहां घूमने गई थी?
क. चिड़िया घर ख. गुड़िया घर [✓] ग. नानी के घर
- पहले के लोग किस में लिखते थे ?
क. श्यामपट्ट में ख. पत्थर एवं पत्तों में [✓] ग. कॉपी में
- पपाइरस की खोज किसने की ?
क. जापान के लोगों ने ख. इटली के लोगों ने ग. मिस्र के लोगों ने [✓]
- पपाइरस का प्यारी दोस्त कौन है ?
क. मीनू [✓] ख. सोनू ग. मुन्नु
- किसने पपाइरस के पन्ने फाड़कर कूड़ादान में फेंक दिये?

क. मोहन का दोस्त ख.मीनू का भाई[√] ग.गीलू के दोस्त

प्रश्नों के उत्तर लिखो

1. काका पपाइरस कौन थे?

उत्तर- काका पपाइरस कई सालों से दीवार पर पोस्टर बन कर चिपका हुआ एक पपाइरस था ।

2.काका पायरस को किस के आने का इंतजार था ?

उत्तर - काका पायरस को मीनू के आने का इंतजार था।

3. पपाइरस के क्या- क्या उपयोग है ?

उत्तर- डायरी के पन्ने बनाने में रंग बिरंगे चमकीले कागज बनाने में छापेखाने में पत्र-पत्रिका छापने में ,थैले तथा कुछ का प्रयोग रुपयों में,नैपकिन बनाने में आदि में उपयोग होता है ।

4. पपाइरस की खोज किसने की थी ?

उत्तर - पपाइरस की खोज मिस्र के लोगों ने की थी।

5. पपाइरस का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए?

उत्तर-पपाइरस हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमें इसके पन्नों को फाड़ना नहीं चाहिए , छोटे से छोटे पन्ने का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार पपाइरस के सही प्रयोग से हम न केवल स्वयं बल्कि प्रकृति को भी लाभ पहुँचा सकते हैं।

दिए गए वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण को रेखांकित करें-

क. मीनू ने दुकानदार से कहा एक डायरी दीजिएगा ।

ख. मीनू ने दो मीटर कपड़ा खरीदा ।

ग.मीनू ने दो लीटर दूध खरीदा।

घ. मीनू ने दो किलो चावल खरीदे।

ङ मीनू ने एक किलो सेब खरीदे।

दिए गए शब्दों से संकेत वाचक एवं परिमाणवाचक, वाक्य बनाओ

कोई, किसी ,वह,दो लीटर,चार किलो मीटर, कुछ, थोड़ा

1.कोई- कोई दरवाजे पर कोई आया है।

2. **किसी-** किसी ने मेरी पेंसिल ले ली।
3. **वह-वह** देखो पतंग उड़ रहा है।
4. **दो लीटर-** मीनू ने दो लीटर दूध खरीदा।
5. **चार किलोमीटर-** यह रास्ता चार किलोमीटर है।
6. **कुछ-** तुम कुछ छुपा रहे हो।
7. **थोड़ा -** मुझे थोड़ा सा पानी दे दो।

इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो -
अँधेरा ,अमृत ,अवगुण अंग ,आकाश ,दिन

अँधेरा - अंधकार, तिमिर, तम ।
अमृत -सुधा, पीयूष ,सोम ।
अवगुण -दोष ,कमी ,बुराई ।
अंग- शरीर ,भाग ,अंश ।
दिन- दिवा, दिवस, वार ।